

20071212135152001

सहायक विक्रीकर आयुक्त पदावर पदोन्नती
देवून पदस्थापना करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग

शासन आदेश क्र.विक्रवि-३२०७/प्र.क्र.१०५/विक्रीकर (प्र.२)

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक :- ११ डिसेंबर, २००७

आ दे श

शासन असा आदेश देत आहे की, विक्रीकर विभागातील खालील नमूद केलेल्या अनुक्रमांक: १ ते ११३ वरील विक्रीकर अधिकारी, यांना सहायक विक्रीकर आयुक्त या पदावर रुपये ८०००-१३५०० या वेतनश्रेणीत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदांवर ते ज्या दिवशी त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील त्या दिनांकापासून पुढील आदेश होईपर्यंत निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे.

अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
१	श्री. सी.आर परदेशी	विक्रीकर अधिकारी, ड- ११९३, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PAL-VAT-D003
२	श्री. पी.एस.जाधव	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट)२, कल्याण	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त RAI-BST-D005
३	श्री. एम.ए.मुरापे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ३, चंद्रपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAG-BST-D001
४	श्री. पी.डी.साबळे	विक्रीकर अधिकारी, (नोदणी) २४, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D038
५	श्रीमती जे.व्ही.गवळी	विक्रीकर अधिकारी, (नोदणी) १२, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D-010
६	श्री. एस.पी.शिंदे	विक्रीकर अधिकारी, ड-११९०,बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D012
७	श्री. आर. एफ.नवले	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १, नाशिक	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MAL-VAT-D001
८	श्री. आर. के. गौड	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (आयुक्त कार्यालय) ५ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त LAT-VAT-D002
९	श्री. डी. एम. करंजे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ७, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त JAG-PTO-D001
१०	श्री. पी. एच. जाधव	विक्रीकर अधिकारी, ड-११९५, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D008
११	श्री. एम. टी. मात्रे	विक्रीकर अधिकारी, (ड १०७१, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D021
१२	श्री. डी. बी. गुळवणी	विक्रीकर अधिकारी, (विअड)१५७७, सांगली	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-BST-D002
१३	श्री. एस. जे. जयकर	विक्रीकर अधिकारी, ड १११७, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D805

अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
१४	श्री. ए. एच. वळवी	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १, नंदुरबार	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त DHU-VAT-D005
१५	श्री. व्ही. डी. सामंत	विक्रीकर अधिकारी, ड ११६७, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D002
१६	श्रीमती पी. पी. नेने	विक्रीकर अधिकारी, ड १०७०, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त THA-VAT-D009
१७	श्री. बी. डी. कोळी	विक्रीकर अधिकारी, ड १०३८, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर, THA-BST-D002
१८	श्री. आर. व्ही. दारके	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) २, नाशिक	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AUR-VAT-D001
१९	श्री. जी. बी. लालपोतु	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ४, औरंगाबाद	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PAR-VAT-D001
२०	श्री. डी. व्ही. पाटील	विक्रीकर अधिकारी, ड ११२३, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D011
२१	श्री. डी. बी. पाबळे	आस्थापना अधिकारी, अ.वि.आ. (आस्थापना) म.रा.कार्यालय, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त THA-BST-D001
२२	श्री. व्ही. टी. कदम	विक्रीकर अधिकारी, ड १२१०, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D023
२३	श्री. जी. एस. मानकर	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १६९१, चंद्रपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CHA-BST-D001
२४	श्रीमती एस पी. चव्हाण	विक्रीकर अधिकारी, ड १०७२, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D832
२५	श्री. एस. ए. सौदंतीकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) २७, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-PTO-D001
२६	श्री. पी. आर. पटणे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १४२३, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D001
२७	श्री. व्ही. एस. दातार	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १५७५ सांगली	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-VAT-D003
२८	श्री. ए. आर. घाटगे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ४१, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-BST-D010
२९	श्री. आर. एल. डोमणे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १६५१, नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त GAD-VAT-D001
३०	श्री. एस. बी. लंकेपिल्लेवार	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १९, नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-VAT-D005
३१	श्री. एस. ए. कुलकर्णी	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड. १५०८, नाशिक	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAS-VAT-D009
३२	श्री. आर. व्ही. जोरे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १६६५, नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-VAT-D006
३३	श्री. जी. एच. साळुंखे	व्यवासायकर अधिकारी, औरंगाबाद	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AUR-PTO-D001
३४	श्री. डी. डी. गुजर	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १४०५, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-BST-D008

अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
३५	श्री. एम. एस. नदाफ	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड. १४५५, सोलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त OSM-VAT-D001
३६	श्री. जे. के. भोसले	विक्रीकर अधिकारी, ड १२१५, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D004
३७	श्री. व्ही. एन. शिवकर	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) २८ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D018
३८	श्री. डी. डी. भुजबळ	विक्रीकर अधिकारी, ड १०३७, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D028
३९	श्री. एस. एम. शालीग्राम	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ३ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D005
४०	श्री. एम. पी. फणसे	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ४ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D041
४१	श्री. डी. जे. ओगले	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १३०४, ठाणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D005
४२	श्री. एच. आर. काळवाघे	विक्रीकर अधिकारी, ड ११५८, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PAL-VAT-D009
४३	श्री. के. आर. खांडेकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ९, नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त BHA-VAT-D001
४४	श्री. एस. जे. निकाळे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) २, नंदुरबार	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AUR-VAT-D005
४५	श्री. एस. सी. पाटील	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) २, नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-VAT-D007
४६	श्री. एस. आर. पाटील	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ५४ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D005
४७	श्री. एच. एच. शेख	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १३२१, कल्याण	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-PTO-D003
४८	श्री. जी. एम. मोरे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १३१५, कल्याण	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-SUR-D002
४९	श्री. व्ही. डी. वाळ्वळ	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ४६, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D027
५०	श्रीमती पी. पी. दोंदे	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ५०, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D022
५१	श्री. के. बी. दामोदलेकर	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १३२८, नालासोपारा	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAL-VAT-D001
५२	श्रीमती व्ही. आर. नरवणकर	व्यवसायकर अधिकारी, १२, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D009
५३	श्री. पी. जी. पाटकर	विक्रीकर अधिकारी, (परतावा व परतावा लेखा परीक्षण) ५, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D007
५४	श्रीमती जे. के. खोपकर	विक्रीकर अधिकारी, (आयुक्त कार्यालय) ३, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D032
५५	श्री. जी. एम. परब	विक्रीकर अधिकारी, ड १२०१, बेलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D030

अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
५६	श्री. बी. टी. किनगे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड.१६९०, खामगाव	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-PTO-D001
५७	श्री. वि. ना. आठल्ये	विक्रीकर अधिकारी, ड १०९३, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D019
५८	श्री. एफ. यु. दलवाई	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) २ मुंबई	Registrar, MSTT
५९	श्री. एच. व्ही. थोरवे	व्यवसायकर अधिकारी, ५, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-BST-D012
६०	श्री. पी. डी. सांगळे	विक्रीकर अधिकारी, (परतावा लेखापरिक्षण) ७ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D002
६१	श्री.एस. बी. आव्हाड	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ३५, मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D010
६२	श्री. आर. वाय. बढे	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ४१ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D007
६३	श्री. एम. बी. आव्हाड	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) २१ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D025
६४	श्री. एस. डी. तांदळे	विक्रीकर अधिकारी, (व्यवसाय लेखा परिक्षण) ३६ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D022
६५	श्री. डी. पी. ढोले	व्यवसायकर अधिकारी, १६ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D601
६६	श्री. एन. व्ही. सोरटे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ३६ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PAL-PTO-D001
६७	श्री. एम. एस. राठोड	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १६१३, परभणी	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AUR-VAT-D004
६८	श्री. एस. डी. केसकर	व्यवसाय कर अधिकारी, १७ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त RAI-VAT-D005
६९	श्री. बी. वाय. कोळेकर	व्यवसाय कर अधिकारी, ५ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D819
७०	श्री. सी. एम. मंचरे	व्यवसाय कर अधिकारी, १ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAS-BST-D003
७१	श्री. एस. बी. शिंदे	विक्रीकर अधिकारी,(व्हॅट) ३० पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त LAT-VAT-D001
७२	श्री. डी. पी. सोनेवार	विक्रीकर अधिकारी,वि.अ.ड १६५९ नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-VAT-D008
७३	श्री. एस. एन. मुदगल	विक्रीकर अधिकारी, विअड १६८४, अकोला	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAG-VAT-D003
७४	श्री. आर.एस. चौधरी	विक्रीकर अधिकारी, व्हॅट) ४, धुळे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त DHU-VAT-D006
७५	श्री. एम. डी. साळवी	विक्रीकर अधिकारी, विअड १४१६, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त SOL-PTO-D001
७६	श्रीमती ए. एस. वाबळे	विक्रीकर अधिकारी, (वसुली) २ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D808


अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
७७	श्री. एम. डी. चव्हाण	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १ कल्याण	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D015
७८	श्री. व्ही. एस. सुटे	विक्रीकर अधिकारी, ड ११८१ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D015
७९	श्रीमती. एन. बी. अझीझखान	विक्रीकर अधिकारी, विअड १६०९, नांदेड	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAN-VAT-D002
८०	श्रीमती जे. पी. वाघ	व्यवसायकर अधिकारी, धुळे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त DHU-VAT-D004
८१	श्री. ए. ए. चोपडे	विक्रीकर अधिकारी, विअड १५५२ कोल्हापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-BST-D001
८२	श्री. व्ही. डी. कुचेवार	विक्रीकर अधिकारी, (परतावा व परतावा लेखापरिक्षण) ६ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D015
८३	श्री. पी. टी. कोळी	विक्रीकर अधिकारी, ड १५६९, सातारा	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त SAT-VAT-D001
८४	श्री. बी. यु. वायल	विक्रीकर अधिकारी वसुली ४ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-BST-D018
८५	श्री. ए. व्ही. नेवसे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ७ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-INV-D020
८६	श्री. एम. ए. माळवदे	आस्थापना अधिकारी, (विक्रीकर कार्यालय) सातारा	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-VAT-D009
८७	श्री. एन.एम. मोहिते	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ३ ठाणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D011
८८	श्री. बी. के. गायकवाड	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) ८ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D810
८९	श्री. पी. टी. मेंदुलकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १ नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AMR-VAT-D009
९०	श्री. एस. एस. बनकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १ चंद्रपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त YAV-VAT-D001
९१	श्री. एस. आर. जोशी	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ५ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त SOL-VAT-D005
९२	श्री. आर. एस. कुलकर्णी	विक्रीकर अधिकारी, विअ ड १४१७ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D003
९३	श्री. पी. एस. पंडीत	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) २ जळगांव	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AUR-VAT-D003
९४	श्री. आर. बी. गायकवाड	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ८ नाशिक	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAS-BST-D002
९५	श्री. वाय. डी. कुलकर्णी	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ. ड १५०१ नाशिक	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D005
९६	श्री. एन. जी. आवळे	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) १४ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त CST-ADM-D009
९७	श्री. ए. बी. अहिरकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ३ नागपूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त WAS-VAT-D001

अ.क्र	अधिका-यांचे नांव	सध्याचे पदनाम	पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना
१	२	३	४
९८	श्री. ए. जे. मुलानी	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १८ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D030
९९	श्री. एस. एस. वाघमारे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १ वाशिम	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त AKO-BST-D001
१००	श्री. एस. डी. गवाणकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्यवसाय लेखा परिक्षण) ७ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D507
१०१	श्रीमती यु. डी. लॉडे	व्यवसायकर अधिकारी, २ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D008
१०२	श्री. ए. के. बोदाडे	आस्थापना अधिकारी विक्रीकर कार्यालय सोलापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त BAR-BST-D001
१०३	श्री. बी. एस. बाळण्णा	विक्रीकर अधिकारी, विअ ड १५५७ कोल्हापूर	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-VAT-D001
१०४	श्री. एस. बी. टोपकर	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) १ रत्नागिरी	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त KOL-VAT-D006
१०५	श्री. ए. के. गावंडे	आस्थापना अधिकारी, (विक्रीकर कार्यालय) अमरावती	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त GON-VAT-D001
१०६	श्री. डी. एस. वाघमारे	विक्रीकर अधिकारी, (व्हॅट) ३ अमरावती	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त NAG-VAT-D011
१०७	श्री. एन. पी. कणसे	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १५८२ सांगली	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त HIN-VAT-D001
१०८	श्री. एस. पी. खरात	विक्रीकर अधिकारी, (नोंदणी) २६ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त MUM-VAT-D816
१०९	श्री. एस. एस. धर्माधिकारी	विक्रीकर अधिकारी, (परतावा लेखा परीक्षण) ६, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D014
११०	श्री. व्ही.के. सावंत	विक्रीकर अधिकारी, वि.अ.ड १४१२ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-BST-D003
१११	श्री. जी.वाय.सरफरे	विक्रीकर अधिकारी, (आयुक्त कार्यालय) १ मुंबई	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त THA-INV-D001
११२	श्री. एस.एन.खांदवे	विक्रीकर अधिकारी, (व्यवसाय लेखा परिक्षण) १२ पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D018
११३	श्री. एम.एन.मिसाळ	विक्रीकर अधिकारी, ड १४०२, पुणे	सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त PUN-VAT-D020

२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१५.०६.१५ व दि.३०.०६.०४ च्या शासन निर्णयानुसार ज्यांना संरक्षण प्राप्त झाले असेल त्यांची सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२४.०६.०४ व दि.३०.०६.०४ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित होण्याच्या तसेच सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या व मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका क्र.८४५२/२००४ च्या निर्णयाच्या अधीन राहतील. तसेच सदर पदोन्नत्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहतील .

३. उपरोक्त अधिका-यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पीएवाय-१०८२/सीआर-११०० (एक)/एसईआर-३, दि.६.११.१९८४ नुसार वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावयाचा असल्यास त्यांनी तो पदोन्नतीच्या दिनांकापासून पुढे एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९७९ मधील ११ (एक) खाली पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,


(निसीमा म. शेख)
उप सचिव, वित्त विभाग.

प्रति,

मा.मंत्री (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक.
मा.राज्यमंत्री (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक
प्रधान सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक
विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
अपर विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई.
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई.
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (सर्व)
सर्व संबंधित अधिकारी, विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत
विक्रीकर प्रशासन-१,३ व ४.
निवड नस्ती, विक्रीकर (प्रशा-२)